



Coronavirus (COVID-19) टेस्टिंग (जांच)

यदि आपके coronavirus (COVID-19) से सम्बन्धित सवाल हैं, तो 24-घंटे की coronavirus हॉटलाइन को 1800 675 398 पर फोन करें।

यह पता लगाने के लिए कि coronavirus का टेस्ट कराने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, आप 24-घंटे की coronavirus हॉटलाइन को 1800 675 398 पर फोन कर सकते हैं या वेबसाइट <https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested-coronavirus-covid-19> देख सकते हैं।

यदि आपको एक दुभाषिए की ज़रूरत है, तो पहले 131 450 पर फोन करें, फिर coronavirus हॉटलाइन के लिए निवेदन करें या उन्हें आपके लिए वेबसाइट देखने के लिए कहें।

आप <https://www.coronavirus.vic.gov.au/translations> पर अनुवाद किए गए और अधिक संसाधनों का पता लगा सकते हैं।

विकटोरिया में coronavirus का टेस्ट सभी लोगों के लिए निःशुल्क है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी, शरण माँगने वाले लोग या विदेशी आगंतुक शामिल हैं

Coronavirus टेस्ट हर किसी के लिए निःशुल्क है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके पास Medicare कार्ड नहीं है, जैसे कि विदेश से घूमने आए लोग, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी, प्रवासी कर्मचारी और शरण-प्रार्थी।

यदि आपको लक्षण हैं, तो निम्नलिखित में से किसी भी स्थान पर निःशुल्क जाँचकरवा सकते हैं:

- विकटोरियाई अस्पताल की coronavirus तीव्र श्वसन-संबंधी आकलन क्लिनिक (Acute Respiratory Assessment Clinic)
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्वसन-संबंधी आकलन क्लिनिक (Community Health Centre Respiratory Assessment Clinic)
- शॉपिंग सेंटर में ड्राइव-थ्रू क्लिनिक
- क्षेत्रीयवॉक-थ्रू क्लिनिक।

Coronavirus का टेस्ट किसे करवाना चाहिए?

यदि आपको निम्न में से कोई लक्षण हैं तो आपको coronavirus का टेस्ट करवाना चाहिए:

- बुखार
- ठंड के मारे कंपकंपी
- खांसी
- गले में दर्द
- साँस लेने में कठिनाई
- नाक बहना
- गंध का एहसास न होना

यदि आपके लक्षण मामूली भी हों, तो भी आपको टेस्ट करवाना चाहिए।

टेस्ट करवाते समय क्या होता है?

जब आप टेस्ट करवाते हैं, तो आपसे आपका कोई पहचान-पत्र और संपर्क विवरण मांगे जाएँगे। यदि आपके पास Medicare कार्ड नहीं है, तो कृपया कोई पहचान-पत्र लाएँ, उदाहरणतः आपका ड्राइवर्स लाइसेंस, पासपोर्ट, परिवहन छूट कार्ड या स्टूडेंट आई.डी.। टेस्ट करने वाली क्लिनिक को आपके वीजा की स्थिति जानने की आवश्यकता नहीं है।

coronavirus टेस्ट किसी नर्स, डॉक्टर या अन्य स्वास्थ्य व्यवसायी द्वारा किया जाता है। वे आपके गले और नाक के अंदर से स्वाँब लेंगे।

क्या coronavirus का टेस्ट करवाने के बाद मुझेसेल्फ-आइसोलेट करने (अपने आपको दूसरों से अलग रखने) की ज़रूरत है?

यदि आपको लक्षण हैं तो आपको डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी द्वारा यह कहा जाएगा कि आप अपने टेस्ट परिणाम आने तक सेल्फ-आइसोलेट करें (अपने आपको दूसरों से अलग रखें)। इसका यह अर्थ है कि अपने टेस्ट के बाद तुरंत घर जाना और अपने टेस्ट परिणाम पता लगने तक घर पर ही रहना।

आपका डॉक्टर या जिस क्लिनिक में आपका टेस्ट हुआ था वह क्लिनिक आपसे संपर्क करेगा और आपको यह कि coronavirus के लिए आपका परिणाम पॉज़िटिव है या नेगेटिव।

परिणाम आने में कितना समय लगता है?

टेस्ट होने के बाद परिणाम आने में आम-तौर पर 1-3 दिन का समय लगता है। यदि बहुत से लोग टेस्ट करवाते हैं, तो आपके परिणाम मिलने में 5 दिन तक का समय लग सकता है।

यदि अपने परिणाम के बारे में आपके कोई सवाल हैं, तो उस क्लिनिक या अस्पताल से संपर्क करें जहाँ आपका टेस्ट हुआ था।

यदि आपका टेस्ट किसी शॉपिंग सेंटर में एक ड्राइव-थ्रू क्लिनिक पर हुआ था और आप 5 से अधिक दिनों से अपने टेस्ट परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो कृपया 24-घंटे की coronavirus हॉटलाइन को 1800 675 398 पर फोन करें। हमारी टीम आपको आपके परिणाम प्राप्त करने में सहायता देगी। शॉपिंग सेंटर में मौजूद ड्राइव-थ्रू क्लिनिक आपके टेस्ट परिणाम प्राप्त करने में आपकी सहायता नहीं कर सकती है, इसलिए कृपया अपने परिणाम के लिए उनसे संपर्क न करें।

आपको आपका टेस्ट परिणाम बताया जाएगा, भले ही यह नेगेटिव हो। यदि आपका टेस्ट परिणाम पॉज़िटिव है, तो Department of Health and Human Services का कोई कर्मचारी आपसे और अधिक जानकारी लेने तथा यह बताने के लिए कि आपको क्या करना है, आपसे संपर्क करेगा।

इस प्रकाशन के आसानी से देखे जा सकने वाले प्रारूप के लिए, [Emergency Management Communications](#) को em.comms@dhhs.vic.gov.au पर ई-मेल करें।

Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.

© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services May 2020.

ISBN/ISSN 978-1-76069-423-4 (online/print)

Available at [Translated resources - coronavirus disease \(COVID-19\)](#) <<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19>>